



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1937 (श0)
(सं0 पटना 1317) पटना, सोमवार, 14 दिसम्बर 2015

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

8 दिसम्बर 2015

सं0 वि०स०वि०-21/2015-3686/वि०स०।—“बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015” जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राजीव कुमार,

प्रभारी सचिव।

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015

[वि०स०वि०-19/2015]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रैल 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2015-16 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 67,14,22,97,000 (सड़सठ अरब चौदह करोड़ बाईस लाख सतानवे हजार) रुपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2015 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 67,14,22,97,000 (सड़सठ अरब चौदह करोड़ बाईस लाख सतानवे हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे।

3. विनियोग-। - इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2015 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	4,78,40,99,000		4,78,40,99,000
		पूँजी	9,12,11,000		9,12,11,000
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	63,13,00,000		63,13,00,000
		पूँजी			
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	1,10,01,000		1,10,01,000
		पूँजी	1,03,67,55,000		1,03,67,55,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	2,19,91,000		2,19,91,000
		पूँजी			
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व			
		पूँजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व	4,00,000		4,00,000
		पूँजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1,03,76,000		1,03,76,000
		पूँजी			
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	9,01,000		9,01,000
		पूँजी			
10	उर्जा विभाग	राजस्व	6,93,87,00,000		6,93,87,00,000
		पूँजी			
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	2,00,00,00,000		2,00,00,00,000
		पूँजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व	1,05,43,000		1,05,43,000
		पूँजी			
13	सूद भुगतान	राजस्व			
		पूँजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूँजी			
15	पेंशन	राजस्व	2,00,000		2,00,000
		पूँजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	1,53,65,01,000		1,53,65,01,000
		पूँजी	2,00,00,000		2,00,00,000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व			
		पूँजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	34,48,40,000		34,48,40,000
		पूँजी	98,00,000		98,00,000
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	84,35,000		84,35,000
		पूँजी			
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	6,11,62,21,000		6,11,62,21,000
		पूँजी			

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	11,81,27,68,000		11,81,27,68,000
		पूजी			
22	गृह विभाग	राजस्व	3,80,65,30,000		3,80,65,30,000
		पूजी	78,55,76,000		78,55,76,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	2,13,00,36,000		2,13,00,36,000
		पूजी	1,28,40,000		1,28,40,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व			
		पूजी			
25	सूचना प्राविधिकी विभाग	राजस्व	18,65,01,000		18,65,01,000
		पूजी	37,70,000		37,70,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	14,07,83,000		14,07,83,000
		पूजी			
27	विधि विभाग	राजस्व	2,30,00,000		2,30,00,000
		पूजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		2,50,00,000	2,50,00,000
		पूजी			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व			
		पूजी			
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	92,67,00,000		92,67,00,000
		पूजी	86,50,00,000		86,50,00,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	1,55,000		1,55,000
		पूजी			
32	विधान मंडल	राजस्व	2,90,01,000	1,00,000	2,91,01,000
		पूजी			
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	11,22,05,000		11,22,05,000
		पूजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व		1,78,00,000	1,78,00,000
		पूजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व			
		पूजी	1,24,00,00,000		1,24,00,00,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व			
		पूजी	1,50,00,00,000		1,50,00,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व			
		पूजी	13,18,63,00,000		13,18,63,00,000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	2,64,00,000		2,64,00,000
		पूजी	1,00,00,000		1,00,00,000
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	6,00,01,000		6,00,01,000
		पूजी			
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	3,42,06,000		3,42,06,000
		पूजी			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व			
		पूजी	3,000		3,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व			
		पूजी			

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रुपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	22,53,27,000		22,53,27,000
		पूंजी	6,00,01,000		6,00,01,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	1,29,36,07,000		1,29,36,07,000
		पूंजी			
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	38,36,00,000		38,36,00,000
		पूंजी	17,25,96,000		17,25,96,000
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	6,13,50,000		6,13,50,000
		पूंजी	25,78,55,000		25,78,55,000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	2,52,00,000		2,52,00,000
		पूंजी			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	2,86,05,00,000		2,86,05,00,000
		पूंजी			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	6,00,01,000		6,00,01,000
		पूंजी	99,68,09,000		99,68,09,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व			
		पूंजी	23,75,00,000		23,75,00,000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	2,000		2,000
		पूंजी			
योग राजस्व			46,61,33,81,000	4,29,00,000	46,65,62,81,000
योग पूंजी			20,48,60,16,000		20,48,60,16,000
महायोग			67,09,93,97,000	4,29,00,000	67,14,22,97,000

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2015 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2015 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 67,14,22,97,000 (सड़सठ अरब चौदह करोड़ बाईस लाख सतानवे हजार) रुपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है ।

(अब्दुल बारी सिद्दिकी)

भार-साधक सदस्य

पटना,
दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1317-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>